

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 2003 (वैशाख 27, 1925)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 2003 (VAISAKHA 27, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुम्बई, दिनांक 4 मार्च 2003

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण जनवरी 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है:—

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
कोलकाता सिकिल 10% राहत बांड 1995					
सीए-000839	रु. 3,00,000/-	जयिता देब और मानसी बोस	संचयी	जयिता देब और मानसी बोस	फाइल सं. आई-2545 दिनांक 13.01.2003 का महाप्रबंधक का आदेश (डायरी सं. एलसीओ- 98/02.03 दिनांक 13.01.2003)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
कोलकाता सेंट्रल					
10% राहत बांड 1995					
सीए-4253	रु.5,00,000/-	जहाँगीर एच.पटेल और जरीन जहाँगीर पटेल	संचयी	जहाँगीर एच.पटेल और जरीन जहाँगीर पटेल	फाईल सं.आई-2548 दिनांक 13.01.2003 का महाप्रबंधक का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-99/02-03 दिनांक 13.01.2003)
कानपुर सेंट्रल					
10% राहत बांड 1995 (जी.पी.एस.संचयी)					
के.एन.000576	रु.47,00,000/-	अखिलेश कुमार साहू एवं मीनू साहू	7.4.1997	अखिलेश कुमार साहू एवं मीनू साहू	आई.आर.903/76 दिनांक 23.1.2003

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया व्यय की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
मुंबई (फोर्ट सेंट्रल)					
भारत सरकार स्वर्ण बांड 1998					
बीवाई/एस.जे.जी./000282 से बीवाई/एस.जे.जी./000289 तक (आठ बांड)	500 ग्राम स्वर्ण हर एक	राधेश्याम मिश्रीलाल सराफ	08/06/1993	गोविन्द राधेश्याम अग्रवाल	मामला सं.20.04.2105 महा प्रबंधक के दिनांक 17/12/2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं.406 दिनांक 17 दिसम्बर 2002
6.5% भारत सरकार ऋण 2005					
बी.वाई/006901	रु.6,000/-	केनरा बैंक	01/04/1979	दि शाहाबाद इन्व्हेस्टमेंट्स एंड ट्रेडर्स लि. प्राक्लिडंट फंड ट्रस्ट	मामला सं.20.04.2231 महा प्रबंधक के दिनांक 9/12/2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं.391 दिनांक 9 दिसम्बर 2002

1.	2.	3.	4.	5.	6.
भायखला, मुंबई (सर्कल) 9% राहत पत्र 1987					
जीपीए-बीसी-10861	रु.10,000/-	शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव	8.1.1991	शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव	06.25.62 21.6.2002
नागपुर सर्कल स्वर्ण बांड योजना, 1993					
बीवाय एस्टीएल.000189	591 ग्राम	राजेन्द्र कुमार ओसवाल	1998 में परिपक्वता पर देय	राजेन्द्र कुमार ओसवाल	उप महा प्रबंधक के दि. 23 नवम्बर 2002 के आदेशानुसार
कोलकाता सर्कल 5 3/4 % ऋण 2001					
सीए-001085	रु.5,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	जारी किए जाने के बाद कोई ब्याज नहीं दिया गया	जयंत चक्रवर्ती और मलय कुमार चटर्जी (ट्रस्टी कंटेनर्स एंड क्लोजर्स लि. वर्क्स प्रिविटेड फंड)	फाईल सं. -आई 2432 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 05.11.2002 (डायरी सं.एलसीओ- 72/02-03 दिनांक 05.11.2002)
सीए-001094	रु.25,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
कोलकाता सर्कल 9% राहत बांड 1999					
सीएसी-001121	रु.8,00,000/-	समर गुप्ता (दिनांक 29.05.2001 को दिवंगत) और जली गुप्ता (ई और एस)	संनयी	जली गुप्ता	फाईल सं. -आई -2546 महाप्रबंधक का दिनांक 25.11.2002 का आदेश (डायरी सं.एलसीओ-78/02-03 दिनांक 25.11.2002)

सहस्रमोहिनी
(ए.एस. मोहिनाणी)
कृते मुख्य महा प्रबंधक

मुद्रा दिनांक 8 अप्रैल 2003

भारत सरकार के गजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत तथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसार फरवरी 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिनिधि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कोलकाता सर्कल					
10% गहल बांड 1995					
सीए-000718	रु. 50,000/-	चमेली गुहा और सुरोजित समन्त	सचयी	चमेली गुहा और सुरोजित समन्त	फाइल सं. आई-2549 महाप्रबंधक का दिनांक 07.02.2003 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ- (08/02-03 दिनांक 07.02.2003))
सीए-000736	रु. 50,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

सूची "ख"

मुंबई (फोर्ट सर्कल)					
भारत सरकार स्वर्ण बांड 1998					
बीवाई/एस.जे.जी./000282 से बीवाई/एस.जे.जी./000289 तक (आठ बांड)	500 ग्राम स्वर्ण हर एक	राधेश्याम मिश्रीलाल सराफ	08/06/1993	गोविन्द राधेश्याम अप्रवाल	मामला सं. 20.04.2105 महा प्रबंधक के दिनांक 17/12/2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 406 दिनांक 17 दिसम्बर 2002
6.5% भारत सरकार ऋण 2005					
बी.वाई/006901	रु. 6,000/-	केनरा बैंक	01/04/1979	दि शहाबाद इन्व्हेस्टमेंट्स एन्ड ट्रेडर्स लि. प्राक्विडन्ट फंड ट्रस्ट	मामला सं. 20.04.2231 महा प्रबंधक के दिनांक 9/12/2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 391 दिनांक 9 दिसम्बर 2002

1.	2.	3.	4.	5.	6.
भायखला, मुंबई (सर्कल) 9% राहत पत्र 1987					
जीपीए-बीसी-10861	रु.10,000/-	शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव	8.1.1991	शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव	06.25.62 21.6.2002
नागपुर सर्कल स्वर्ण बांड योजना, 1993					
बीवाय.एसटीएल.000189	591 ग्राम	राजेन्द्र कुमार ओसवाल	1998 में परिपक्वता पर देय	राजेन्द्र कुमार ओसवाल	उप महा प्रबंधक के दि. 23 नवम्बर 2002 के आदेशानुसार
कानपुर सर्कल 10% राहत बांड 1995 (जी.पी.असंचयी)					
के.एन.000576	रु.47,00,000/-	अखिलेश कुमार साहू एवं मीनू साहू	7.4.1997	अखिलेश कुमार साहू एवं मीनू साहू	आई.आर.903/76 दिनांक 23.1.2003
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कोलकाता सर्कल 10% राहत बांड 1995					
सीए-000839	रु.3,00,000/-	जयिता देब और मानसी बोस	संचयी	जयिता देब और मानसी बोस	फाइल सं.आई-2545 दिनांक 13.01.2003 का महाप्रबंधक का आदेश (डायरी सं.एलसीओ-98/02-03 दिनांक 13.01.2003)
सीए-4253	रु.5,00,000/-	जहाँगीर एच.पटेल और जरीन जहाँगीर पटेल	संचयी	जहाँगीर एच.पटेल और जरीन जहाँगीर पटेल	फाइल सं.आई-2548 दिनांक 13.01.2003 का महाप्रबंधक का आदेश (डायरी सं.एलसीओ-99/02-03 दिनांक 13.01.2003)

महेश मोहिनाजी

(ए.एस. मोहिनाजी)

कृते मुख्य महा प्रबंधक

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय

इन्दौर-452 003, दिनांक 1 मई 2003

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के शेयरधारियों की 42वीं वार्षिक सामान्य सभा निम्नलिखित कार्य हेतु रवीन्द्र नाट्य गृह, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर पर गुप्तार दिनांक 26 जून 2003 को 11.30 बजे (मानक समय) आयोजित की जाएगी।

“31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष (1.4.2002 से 31.3.2003) के लिए बैंक का तुलनपत्र व लाभ-हानि खाता, इसी वर्ष के लिए बैंक के कामकाज पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना।”

निदेशक मण्डल के आदेश से,

एस० प्रसाद राव
प्रबंधक निदेशक

इंडियन बैंक

प्रधान कार्यालय

चेन्नै-600 001, दिनांक 12 अप्रैल 2003

सं. 223, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--

(1) ये विनियम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में, विनियम 38 के द्वितीय उपबंध के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, नामतः :--

“बशर्ते यह भी कि जहाँ कोई अधिकारी, विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत सूचना देने के उपरान्त 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद सेवा से त्याग पत्र देता हो या सेवा छोड़ता हो तो सेवा छोड़ने की तारीख तक उसके खाते में जमा ऐसी छुट्टी के आधे भाग के साधिकार छुट्टी के संबंध में उसे, उसके बराबर की परिलब्धियों प्रदान की जाए जो कि अधिकतम 120 दिन से अधिक न हो।”

आर० सत्यनारायण मूर्ति
सहायक महा प्रबंधक (आईआर एवं एचआरडी)


पाद-टिप्पणी : भारत के राजपत्र में मुख्य विनियमों के संशोधन का विवरण निम्न प्रकार प्रकाशित किया गया था :

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	22	31.05.1997
2	25	16.03.2000
3	34	25.08.2001

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 03 अप्रैल 2003


संख्या : यू-16/53/2001-चि0-2(उड़ीसा) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ.एस.पी.दास, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर एक वर्ष की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व जोन), उड़ीसा द्वारा निर्धारित पश्चिमी उड़ीसा के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।



(डॉ.(श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2003

संख्या : यू-16/53/94-चि0-2(असम) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा असम व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी जोन) कोलकाता द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संधिध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डॉ. ए.के.बरुआ, पूर्व प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, असम की सेवाओं को दिनांक 18.08.02 से 30.09.02 तक की कार्योत्तर मंजूरी तथा दिनांक 1.10.02 से 17.08.03 तक डॉ.(श्रीमती)एल.हजारिका, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, असम की सेवाएं, पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ।



(डॉ. (श्रीमती) एस. सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

संख्या : यू-16/53/ /पी.टी.एम.आर.(मुंबई)/चि.शा.2: कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-


क्र.सं.	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1.	डॉ. जी.वी.देशमाने	1 जनवरी, 2003 से 31 दिसंबर, 2003 तक	आमलनेर (महाराष्ट्र)

सु २१६

(डॉ.(श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2003


संख्या : यू-16/53/2000-चि.2(गुजरात) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. (कर्नल) ए.के.एस. बार्थस, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 20.3.2003 से 19.3.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम ज़ोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित ग्वालियर केन्द्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।


(डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2003

संख्या : एन-15/13/14/6/2000-यौ०स्व० वि०
कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य। विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 1948 का 34 की धारा-46 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2003 से ही तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायें, अर्थात् :-

"काँचीपुरम जिले में श्रीपेरुम्बुदूर तालुक के राजस्व गाँव-
तिरुमुडिवाक्कम" ।


[आर.सी. शर्मा]
संयुक्त निदेशक यौ० स्व० वि० ।

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं. एस 35017/3/02-एस. एस. II--जबकि मैसर्स कोलागे, 74--चेन्नई (इसके पश्चात् एक प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया गया है) को तत्कालीन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(1)(क) के अधीन अधिसूचना संख्या: एस-35015/16/ 93-एस.एस. II, दिनांक 8-7-1994 के द्वारा छूट प्रदान की गई थी ।

और जबकि

- (i) प्रतिष्ठान ने बिना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के अन्य कंपनियों के अंशदान को न्यास को भेजने की अनुमति दी है ।
- (ii) प्रतिष्ठान, मासिक विवरणियाँ और तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) समय पर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है ।
- (iii) प्रतिष्ठान, फार्मों तथा तुलन-पत्रों का समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका है ।
- (iv) प्रतिष्ठान, निवेश की निर्धारित प्रक्रिया को बनाये रखने में असफल रहा है ।
- (v) प्रतिष्ठान, नामकनों के ठीक रखरखाव में असमर्थ रहा है ।

अतः, अब, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 31.03.2002 से उक्त प्रतिष्ठान को दी गई छूट को रद्द करती है ।

(संयुक्ता राय)

अवर सचिव, भारत सरकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन [केन्द्रीय कार्यालय]

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 अप्रैल 2003

सं. के. भ. नि. आ. I(4)एमएच/2063/2003/40

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 [1952 का 19] के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं. कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1. एम/एच/46033	मै0 एयर पैक इंडिया	
2. एम/एच/46062	मै0 मेलफ्रेन्क इंजीनियर्स	6. 5. 2002
3. एम/एच/46082	मै0 प्रियाटा इंटर कॉन्टिनेंटल	9. 5. 2002
4. एम/एच/46091	मै0 स्टैण्डर्ड टेक्नालाजी एंड कन्वर्टर्स प्रा० लि०	6. 5. 2002
5. एम/एच/46201	मै0 विकिंग मेरीन सर्विसेज	1. 4. 2002
6. एम/एच/एनएसके/51938	मै0 राजहन्स नक्षत्री सहकारी पत संस्था	16. 8. 2002
7. एम/एच/एबी/81153	मै0 पारेली वैजनाथ ताल्लुका खरीदी बिक्री संघ लि०.	1. 10. 2002
		22. 5. 2002

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 948 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

(स. आर. जोशी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

सं. के. भ. नि. आ. I(4)महा.(2036)/2002/41

केन्द्रीय मन्त्रालय निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी मन्त्रालय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 §1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1.	एमएच/एनएसके/51821	मे० काई राजाराम नाहे पाटिल सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था	1.12.01
2.	एमएच/51823	मे० कैटिक मामेटिंग	1.6.01
3.	एमएच/45436	मे० आई एच पी फाइनेस्ट लि०.	1.5.01
4.	एमएच/97690	मे० ए. एस. डी. विज़न	1.3.01
5.	एमएच/45354	मे० अकिन केमिकल एंड ग्रो लि०.	1.4.99
6.	एमएच/105143	मे० डी. एम. गुप कम्युनिकेशन	1.2.02
7.	एमएच/105144	मे० प्रतिभा देवी नक्षत्री सहकारी पत्र संस्था	1.1.02
8.	एमएच/97793	मे० नोवाकॉम टेक्नालाजिज §डो§ ग्रो लि०	1.6.01
9.	एमएच/97679	मे० सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन	1.3.01
10.	एमएच/45900	मे० रिसॉर्सिज रिसर्च इंटरनेशनल	1.12.01
11.	एमएच/45901	मे० अग्रवाल केमिकल एजेंसीज	1.12.01
12.	एमएच/97594	मे० श्री रंग कलासिज	1.4.2000
13.	एमएच/45790	मे० ट्रिटान लाजिस्टिक्स एंड मेरीटाइम ग्रो लि०.	1.8.01
14.	एमएच/97826	मे० मार्गर सेल्स एंड सर्विसिज	1.8.01
15.	एमएच/39152	मे० कल्पतरु §रियल एस्टेट बाम्बे ग्रो लि०. §	1.1.93
16.	एमएच/39151	मे० कल्प-तरु §इंडो-सेविगान§ कंस्ट्रक्शन ग्रो लि०.	1.1.93
17.	एमएच/51822	मे० आनन्द नागरी सहकारी पत्र संस्था	1.11.01
18.	एमएच/39154	मे० कल्पतरु हैबीटेड ग्रो लि०.	1.1.93
19.	एमएच/45826	मे० पी. सी. पाइपलाइन	1.11.2001
20.	एमएच/45081	मे० डिजिटल जोन	1.11.2000
21.	एमएच/63287	मे० सिद्धि विनायक सिविली रीटी सर्विसिज	1.1.2002
22.	एमएच/45984	मे० आहूराज शिपिंग एंड क्लियरिंग कं० ग्रो लि०.	1.1.02
23.	एमएच/45271	मे० कोटेक्स फारेक्स ब्रोकरेज लि०.	1.3.01
24.	एमएच/45899	मे० जार्ज फिशर पाइपिंग सिस्टम लि०.	1.1.02
25.	एमएच/45958	मे० प्रभु एनवायरोंटेक ग्रो लि०.	1.3.02
26.	एमएच/28115	मे० अनंनथाचार्या इंडोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	1.1.2000
27.	एमएच/51835	मे० सतावा उत्तर भागविविड कार्यकारी सह. (विकास) सेवा एस. मर्यादित	1.2.02

28.	एमएच/45923	मे० कल्पतरु सोहम प्रापर्टी डेवलपर्स प्रा० लि०.	1. 9. 1993
29.	एमएच/45981	मे० मनीमैन सोफ्टवेयर	1. 3. 2002
30.	एमएच/एनएसके/ 51824	मे० काशीनाथ डी. एस्. एन्. एस्. पट संस्था	1. 1. 2002
31.	एमएच/45780	मे० विकास हायरिंग सर्विस	1. 3. 2001
32.	एमएच/45419	मे० हार्ड-प्लायर्स ट्रेवलस सर्विस प्रा० लि०.	1. 4. 01

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा §4§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं ।



§एस. आर. जोशी§

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

सं. के. भ. नि. आ. I(4)एमएच(2039)/2002/42

केन्द्रीय मन्त्रिालय निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी मन्त्रिालय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 § 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	प्राप्ति की तिथि
1.	एमएच/96626	भो शिवम इंस्टीट्यूट	1.9.1997
2.	एमएच/45353	भो रेवेरेस्ट मार्बल ऐजेंसीज	1.7.1999
3.	एमएच/61085	भो आदर्श सिविलीरिटी सर्विस दलित सोसायटी	1.3.2001
4.	एमएच/105127	भो सुरी पिठल सहकारी साखर कारखाना सेवाकांछी	1.11.2001
5.	एमएच/62092	भो महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल कर्मचारी ग्राहक सहकारी संस्था लि.	1.6.1997
6.	एमएच/39155	भो कल्पतरु बिल्डर्स	1.2.1993
7.	एमएच/46074	भो दल्ही बुक बाइंडर्स	1.4.2002
8.	एमएच/45402	भो फिनोरगा इंडिया प्रा. लि.	1.4.2002
9.	एमएच/44057	भो स्टैरमोन्डे एक्विजम प्रा. लि.	1.6.1998
10.	एमएच/45876	भो जी-4, सोफ्टवेयर अकनालाजीस इंडिया लि.	1.12.2001
11.	एमएच/51818	भो सतना सहकारी ग्राहक संस्था लि.	1.11.2001
12.	एमएच/45734	भो अलफा कंसल्टेंट्स	1.9.2001
13.	एमएच/45849	भो एट्रीब्यूट्स इंटरनेशनल	1.11.2001
14.	एमएच/45483	भो दीपक इंजीनियरिंग	1.6.2001
15.	एमएच/105139	भो यशवन्त अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक	1.11.2001
16.	एमएच/63016	भो उमिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक	1.1.2001
17.	एमएच/63283	भो एक्स सर्विस भेन सिविलीरिटी सर्विस	1.12.2001
18.	एमएच/45932	भो नावेद टेलिकाम	1.2.2002
19.	एमएच/46057	भो ग्रेस कन्सोलिडेशन	1.4.2002
20.	एमएच/45912	भो फ्रेट एक्सप्रेस क्लीयरिंग फारवर्डिंग § इंडिया § प्रा. लि.	1.1.2002

अतः केन्द्रीय मन्त्रिालय निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो, उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

(B)
§ स. आर. जोशी §
केन्द्रीय मन्त्रिालय निधि आयुक्त।

सं. के. भ. नि. आ. I(4)के आर/2053/2003/43

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 §1952 के 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1.	के आर/16673	प्रीमियमिडेट फेड इंडिया प्रा० लि०	12. 6. 2002
2.	के आर/17634	पी. जी. पी. संड संस	30. 4. 2001
3.	के आर/के के/ 17712	चेम्मानूर पैशन जैलर्स	1. 8. 2002
4.	के आर/के के/ 17719	के. वी. के. संड संस	1. 8. 2002
5.	के आर/17725	स्केयर्ड हर्ड कोन्वेन्ट	8. 10. 2002
6.	के आर/के एन आर/ 18158	प्लान्ट बुड इंटीरियर्स	23. 9. 2002
7.	केआर/केएनआर/18163	सोपरनिका ट्रेवल्स	1. 11. 2002
8.	केआर/केएनआर/18146	श्री तिस्वप्पन ट्रेवल्स	18. 4. 2002
9.	केआर2केएनआर/18149	जानकी डीलक्स एक्कल	4. 5. 2002
10.	केआर/केसी/19489	ग्रीन हाउस नर्सरी	20. 11. 2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा §4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त या उन्नी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

(62)

इ. आर. जोशी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

स. के. भ. नि. आ. I(4)टी. एन. (2034)/2002/44

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 §1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/टीआर/43585	मै० धनलक्ष्मी नर्सिंग होम	1. 4. 2000
2.	टीएन/टीआर/43694	मै० पी. आर. एम. के. विवेकानन्द मत स्कूल	1. 10. 2000
3.	टीएन/टीआर/43469	मै० मारुधाम मत स्कूल	1. 1. 2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।



र. आर. जोशी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

स. क. भ. नि. आ. I(4)टी. एन. (2048)/2002/45

कैन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 § 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं०.	कोड सं०.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/एम.डो/42666	मै० उमा स्नेक्स	7. 3. 2002
2.	टीएन/सोबो/56127	मै० श्री संस्था कंसल्टेशन	7. 5. 2002
3.	टीएन/सोबो/56097	मै० शाम स्तो सिटिस	18. 3. 2002
4.	टीएन/सोबो/56098	मै० गणेश कंसल्टेशन वर्क्स	18. 3. 2002
5.	टीएन/50015	मै० तेन्थील टेक्नोलॉजी फ्लैट्स	19. 7. 2002
6.	टीएन/50014	मै० दास क्रेटर्स	31. 5. 2002
7.	टीएन/सोबो/56163	मै० कैम्पोरेरो टी. आर्कशानियर्स प्रा. लि०,	10. 7. 2002
8.	टीएन/50028	मै० माइक्रोटैक पावर कंट्रोल प्रा. लि०,	24. 7. 2002
9.	पोसो/1206	मै० सोसाइटी गेस्ट हाउस	26. 12. 2001
10.	टीएन/65223	मै० रोहिणी टोलिस्टिक हेल्थ सेंटर प्रा. लि०,	31. 7. 2002
11.	टीएन/65225	मै० स्वसल कंसल्टेशन प्रा. लि०,	9. 7. 2002
12.	टीएन/49831	मै० बालाजी इंजीनियर्स	15. 2. 2002
13.	पोसो/1213	मै० देवी टेक्स प्रा. लि०,	2. 4. 2002
14.	पोसो/1212	मै० सेफ्टी फास्ट टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	28. 3. 2002
15.	टीएन/एमडो/42423	मै० एड विनामान्दूर ओ.ओ.प. हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०,	26. 10. 2000
16.	टीएन/टीआई/41405	मै० विनसन एंजिनीयर्स	24. 4. 2002

7.	टीएन/टीआई/ 46921	मे० एम. जी. आर. के. कन्सल्टिंग	2. 4. 2002
18.	पीसी/1219	मे० आई. टी. पावर इंडिया लि०.	23. 4. 2002
19.	टीएन/टीआई/ 46883	मे० थोमाडवर्स एंड संस	15. 12. 2001
20.	टीएन/65077	मे० जीओ सर्विस	16. 5. 2002
21.	टीएन/एमडी/ 42654	मे० श्री बालाजी मयन	22. 2. 2002

अतः केन्द्रीय मविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।



रत. आर. जोशी


क्षेत्रीय मविष्य निधि आयुक्त ।

सं. के. भ. नि. आ. I(4)टी. एन. (2045)/2002/46

केंद्रीय भव्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भव्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 § 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/एम्डी/42720	मे० के० किरानूर पी. ए. सी. बैंक लि०.	31. 5. 2002
2.	टीएन/60106	मे० फ्लोरेनशिया फ़ैस लि०.	31. 8. 2001
3.	टीएन/65197	मे० वी. आई. पी. एन्टरप्राइसिस	17. 6. 2002
4.	टीएन/49318	मे० एम. सी. कोटा इंजीनियरिंग प्रा० लि०.	4. 1. 2001
5.	टीएन/एम्डी/42718	मे० डी. डी. 445 वेदातेन्दूर पंचायत युनियन ई. सी. टी. सी. सोसायटी लि०.	19. 6. 2002
6.	पीसी/1193	मे० सुन्दरी ऐजेंसीज	31. 10. 2001
7.	टीएन/एम्डी/42688	मे० जी. आर. मार्केटिंग प्रा० लि०.	8. 5. 2002
8.	टीएन/65184	मे० प्रेत फोर्म इंडस्ट्रीज	17. 5. 2002
9.	टीएन/50001	मे० सबरीमाला मेट सोल्यूशंस	7. 6. 2002
10.	टीएन/49777	मे० इंडीगटिड लॉजिस्टिक्स इंडिया सर्विसेस प्रा० लिमिटेड	15. 1. 2002
11.	टीएन/टीआई/46919	मे० ए. एन. एस. सुन्दरम एंड कम्पनी	13. 3. 2002
12.	टीएन/49839	मे० मेट्रो आफ इंडिया प्रा० लि०.	1. 3. 2002
13.	टीएन/49552	मे० ग्राईड रेम्डीस प्रा० लि०	30. 5. 2001
14.	टीएन/49860	मे० सामटेक सिस्टम्स	4. 3. 2002
15.	टीएन/टी आई/46880	मे० इंडिया बिल्डर्स	6. 12. 2001
16.	टीएन/49861	मे० स्काईवेस्ट एक्सपोर्ट प्रा० लि०.	7. 3. 2002
17.	टीएन/65122	मे० एसोसियेटेड नियॉन टेक्नीकल सर्विसेस प्रा० लि०.	27. 9. 2001
18.	टीएन/49540	मे० हरिता जनरल फाइनांस प्रा० लि०.	18. 6. 2001
19.	टीएन/65161	मे० वैचर इनफोसिस	11. 2. 2002
20.	टीएन/टीआई/46845	मे० सेंट एन्टोनीस ऐजेंसीज	6. 7. 2001
21.	टीएन/65117	मे० जे. एच. फायर सिक्योरिटी सर्विसेस	1. 11. 2001

अतः केंद्रीय भव्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभाव तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।


[स. आर. जोशी]
केंद्रीय भव्य निधि आयुक्त।

सं. के. भ. नि. आ. I(4)ए पी (2065)/2003/47.

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम एवं पता	ट्याप्ट की तिथि
1.	एपी/29680	भे० भीमावरम लार्ज साइज्ड को-आपक्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1999
2.	एपी/40834	भे० ग्रीन घेसाखा कंसलटेंसी	1. 10. 2001
3.	एपी/39615	भे० दि जल्लाकाल्लू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी	1. 1. 2001
4.	एपी/39679	भे० पिलपूट प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 2001
5.	एपी/228380	भे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 1998
6.	एपी/37179	भे० वेदमाथा कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०.	1. 2. 2001
7.	एपी/40790	भे० श्री साई प्रदीप इंजीनियरिंग वर्क्स	1. 9. 2001
8.	एपी/28247	भे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 1997
9.	एपी/228362	भे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 10. 1998
10.	एपी/233955	भे० दि गंगावरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 2. 2001
11.	एपी/33954	भे० दि चन्दालूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
12.	एपी/33960	भे० इंकोल्लू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
13.	एपी/39677	उमा महोश्वरापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 8. 2001
14.	एपी/37051	भे० रविवालस प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 7. 2000
15.	एपी/33959	भे० एन. 775 डग्लू बाडू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 2. 2001

16.	एपी/33971	मे० दि एप्पीकाटला ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
17.	एपी/38810	मे० धेम्मीगानूर ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 2001
18.	एपी/38822	मे० दि अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट सेररीकल्चर एम्पलाइज को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 2. 2002
19.	एपी/26029	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 10. 1993
20.	एपी/27378	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 1993
21.	एपी/33862	मे० वेलीगांदला ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2000
22.	एपी/39708	मे० मारधी नगर ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 2001
23.	एपी/27377	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 1993
24.	एपी/36367	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 2001
25.	एपी/26375	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 10. 1993
26.	एपी/34703	मे० दि सोमाघट्टा ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 7. 1996
27.	एपी/30669	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 11. 1996
28.	एपी/30863	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 11. 1996
29.	एपी/31884	मे० वेंकटभईरीपुरम ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 6. 1998
30.	एपी/26326	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 8. 1994
31.	एपी/36908	मे० तीगुल पावर इंडस्ट्रीज	1. 10. 2000
32.	एपी/26324	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 8. 1994
33.	एपी/35478	मे० मादीगापुरम ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 9. 1999
34.	एपी/30180	मे० श्री लक्ष्मी आयल ट्रेड्स	1. 9. 1997
35.	एपी/34974	मे० दि कोमीडेडु ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 2000
36.	एपी/30931	मे० दि ग्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 11. 1996

37.	एपी/29682	मे० दीप्थीसक्थोरिटी ट्रेनिंग सेंड सर्विस	1. 11. 1998
38.	एपी/34772	मे० कोथापल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
39.	एपी/36442	मे० श्री बालाजी इंटरप्राइजिज	1. 9. 1999
40.	एपी/34782	मे० कावला कंटिला प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
41.	एपी/33968	मे० दि दुर्गा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
42.	एपी/34785	मे० दि प्रगथि को-आप० बिल्डिंग सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
43.	एपी/33913	मे० दि बोधानाम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
44.	एपी/29406	मे० चित्तानूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 7. 1997
45.	एपी/25846	मे० अय्यावरीपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 1995
46.	एपी/29899	मे० मेगा सिटी सिक्योरिटी सर्विस	1. 4. 1996
47.	एपी/35991	मे० नागार्जुना फार्मरस सर्विस को-आप० सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
48.	एपी/29057	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 1994
49.	एपी/32714	मे० एस०आर० इंटरप्राइजिज	1. 6. 1998
50.	एपी/28978	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 10. 1995
51.	एपी/37884	मे० दि सिटीजन को-आप० सोसायटी लि०.	1. 9. 2000
52.	एपी/26342	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 12. 1993
53.	एपी/30980	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
54.	एपी/30952	मे० सी यत नेटवर्क टेक्नॉलाजीस प्रा० लि०.	1. 5. 1997
55.	एपी/32274	मे० स्वालिटी सेल्स सेंड सर्विस प्रा० लि०	1. 9. 1995
56.	एपी/37213	मे० संगीत सागर	1. 1. 2000
57.	एपी/25420	मे० प्रदीप कुमार पब्लिक स्कूल	1. 2. 1994
58.	एपी/35992	मे० फार्मरस सर्विस को-आप० सोसायटी लि०.	1. 4. 1999
59.	एपी/37692	मे० यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-आप० बैंक लि०.	1. 4. 2000
60.	एपी/34984	मे० माध्वा सॉफ्ट-ट प्रा० लि०.	1. 1. 1999
61.	एपी/37612	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 1999

62.	एपी/30650	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
63.	एपी/36428	मे० श्रीनिवासा फेब्रिक्स	1. 9. 1999
64.	एपी/32120	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
65.	एपी/32347	मे० सारदा साइबरवेयर {प्र०} लि०.	1. 1. 1998
66.	एपी/30902	मे० विमल सेल्स एंड सर्विसिज {प्र०} लि०.	1. 1. 1997
67.	एपी/42016	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
68.	एपी/42015	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
69.	एपी/30701	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
70.	एपी/34874	मे० दीप्ती स्टेसाइड प्र० लि०.	1. 2. 1999
71.	एपी/31066	मे० विजया दुर्गा बिबरेजस लिमिटेड	1. 4. 1996
72.	एपी/34944	मे० एस्. आर. पावरमेक	1. 12. 1996
73.	एपी/38715	मे० एलागोडा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 8. 2001
74.	एपी/29026	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1996
75.	एपी/29618	मे० दि बोडाम्मानूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 7. 1998
76.	एपी/29906	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 10. 1993
77.	एपी/37700	मे० बिसन केन्टीन	1. 7. 2000
78.	एपी/34224	मे० पारस इलेक्ट्रानिक्स	1. 1. 1999
79.	एपी/35825	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 1999
80.	एपी/37712	मे० वामसी इंडस्ट्रीज	1. 5. 2000
81.	एपी/30652	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 1995
82.	एपी/37416	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 11. 1999
83.	एपी/36279	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 1999
84.	एपी/38695	मे० थिम्ममल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 6. 2001
85.	एपी/36291	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 2. 2001
86.	एपी/36602	मे० रायका प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 2. 2000

87.	एपी/29599	मे० दिग्विपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 8. 1998
88.	एपी/34800	मे० मुदीगुल्लू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
89.	एपी/38601	मे० अम्मालादिम्मे प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
90.	एपी/38605	मे० एस्तबीआई स्टाफ को-आप० क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड	1. 1. 2001
91.	एपी/34768	मे० मोवादूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
92.	एपी/38618	मे० थोन्डापाडू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
93.	एपी/34769	मे० क्रिस्टीपाडू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
94.	एपी/35016	मे० श्री कल्याणी को-आप० अर्बन बैंक लि०.	1. 3. 1999
95.	एपी/31898	मे० सोपेरु प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
96.	एपी/34729	मे० कुचीवेरीपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 10. 2000
97.	एपी/36933	मे० तिवी साई सेंटरप्राइसिस	1. 11. 2000
98.	एपी/34749	मे० नल्लूरु प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 11. 2000
99.	एपी/36935	मे० जनमित्रा म्यूचली ऐडिड को-आप० थ्रिफ्ट सोसायटी लि०.	1. 8. 2000
100.	एपी/34767	मे० मामादूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
101.	एपी/34766	मे० रोददाम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
102.	एपी/38608	मे० सिद्धावरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
103.	एपी/36846	मे० दि हिन्दुस्तान प्रिन्सिपल वर्ल्ड को-आप० थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 5. 2000
104.	एपी/36982	मे० गायत्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन्स	1. 12. 2000
105.	एपी/36937	मे० गुप्ता इंजीनियरिंग वर्ल्ड	7. 10. 2000
106.	एपी/31733	मे० तल्लूरु प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 3. 1998
107.	एपी/37041	मे० दि ईसीए एंड आईएस लि०. वर्कर्स कंज्यूमर्स को-आप० स्टोर्स लि०.	1. 1. 2001
108.	एपी/31612	मे० समसवारा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 6. 1996

109.	एपी/28975	मे० दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 2. 1995
110.	एपी/28562	मे० जरजंगी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 4. 1993
111.	एपी/36986	मे० विद्युत एम्पलाईज को-आप० सोसायटी लि०.	1. 12. 2000
112.	एपी/29262	मे० गुनीपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 10. 1996
113.	एपी/37058	मे० कमला नर्सिंग होम	1. 1. 2001
114.	एपी/36981	मे० अजय एसोसिएट्स	1. 11. 2000
115.	एपी/36969	मे० एनाटेस्ट एंड मेरीटाइम कंसल्टेंट	1. 12. 2000
116.	एपी/26855	मे० ब्रह्मंतराला प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 9. 1994
117.	एपी/26842	मे० रेन्नीकोटा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० क्रेडिट सोसायटी लि०.	1. 9. 1994
118.	एपी/38619	मे० टाडा को-आप० हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०.	1. 1. 2001
119.	एपी/34425	मे० येल्लामिल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 8. 1999
120.	एपी/38683	मे० नन्दविमलम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप० सोसायटी लि०.	1. 3. 2001
121.	एपी/37029	मे० सफेनेटिक	1. 1. 2001

अतः केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के सामने दर्ज हैं।

(6)
रत. आर. जोशी
क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद् अधिनियम

शुद्धिपत्र

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-I--जहाँ अनुसूचि-1 में उल्लिखित मैसर्स बाला ग्राफिक्स, चेन्नई, खाता संख्या टी-एन/39234 की क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत छूट प्रदान की है।

उपरोक्त के विषय में मुख्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2.8.02 को 1.3.02 से 31.7.05 तक छूट प्रदान की जा चुकी है। दी गई छूट प्रदान 1.3.02 से 31.7.05 की जगह 1.3.02 से 28.2.05 माना जाए।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/ई.डी.एलआई/एकजाम/89/पार्ट-I--मैसर्स धारानी शुगर्स एवं कैमिकल्स लि., पोलूर, खाता संख्या-टी एन/24810-ई, (2) मै. साक्स एन्सिलरीज लि. चेन्नई, खाता संख्या टी-एन/23519, तथा (3) मै. आर एस एल इन्डस्ट्रीज लि., खाता संख्या टी एन/23533 की क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 30.11.00, 31.10.00 व 30.11.00 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.12.00, 31.10.00 व 30.11.00 से उपरोक्त छूट को रद्द करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-I--मैसर्स एलफोटैक इलैक्ट्रो कैमिकल्स लि., पाण्डीचैरी, कोड सं.-टी एन/पीसी/483 की क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 31.12.97 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 31.12.97 से उपरोक्त छूट को सीमित करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-I--मैसर्स नैल्लूर मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ओप. सोसाइटी नैल्लूर, पो.आ. (वाया) सचिन्द्रम, जिला कन्याकुमारी कोड सं.-टी एन/20590 की क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 1.2.96 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 2.2.96 से उपरोक्त छूट को रद्द/सीमित करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एक्जाम/89/पार्ट-I--मैसर्स दि स्टैंडर्ड टूल्स, चेन्नई कोड सं.-टी एन/3520 को क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 30.11.95 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. धारा 17(2ए) के अन्तर्गत उपरोक्त छूट को रद्द/सीमित करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एक्जाम/89/पार्ट-I--मैसर्स केविनकेयर प्रा. लि., 130, पीटर्स मार्ग, चेन्नई, कोड सं.-टी एन/पीसी/397 को क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 1.7.01 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.7.01 से उपरोक्त छूट को सीमित करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एक्जाम/89/पार्ट-I--मैसर्स मोदी एंड मोदी कम्पनी, मौड हाउस, 60, कस्तूरी रंजन मार्ग, अलावरपैट, चेन्नई, कोड सं.-टी एन/10330 को क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 28.2.02 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.3.02 से उपरोक्त छूट को सीमित करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एक्जाम/89/पार्ट-I--मैसर्स एम. बोन्के, आल इण्डिया प्रैस कम्पा उण्ड, पाण्डीचेरी, कोड सं.-पी सी/606 को क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 31.3.99 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.4.99 से उपरोक्त छूट को रद्द करते हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-1--मैसर्स शिवनन्दा स्टील्स लि., प्लॉट नं. 18, 19 व 20, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अम्बाला, चैन्नई-98 कोड सं.-टी एन/6361 को के.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 7.10.98 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 8.10.98 से उपरोक्त छूट को रद्द/सीमित करते हैं ।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-1--मैसर्स दि वाशरमैन पैट को.ओपरेटिव स्टोर्स लि., 91/2, पी ए एन राजराधिराम मार्ग, चैन्नई, कोड सं.-टी एन/22028 को के.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 28.2.02 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.3.02 से उपरोक्त छूट को रद्द/सीमित करते हैं ।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएलआई/एकजाम/89/पार्ट-1--मैसर्स दि बैकस्टोन ग्रुप आफ इंडिया, डी-109, आईबीआर काम्प्लेक्स, पहली मंजिल, पहला मेन मार्ग, अन्नानगर, चैन्नई, कोड सं.-टी एन/39455 को के.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17(2क) जिसका उक्त अधिनियम में उल्लेख किया गया है, के अंतर्गत विस्तार/छूट प्रदान की है।

तथा जबकि नियोक्ता ने मास्टर पालिसी का 1.1.01 तक नवीनीकरण कराया है तथा सांविधिक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) के कार्यान्वयन को वापिस किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए के.भ.नि.आ. 1.1.01 से उपरोक्त छूट को रद्द करता हूँ ।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 4th March 2003

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(1)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended January 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously-advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Kolkata Circle</u> 10% Relief Bonds 1995					
CA-000839	Rs. 3,00,000/-	Jayita Deb and Manashi Bose	Cumulative	Jayita Deb and Manashi Bose	File No. 2545 General Manager's Order dated 13.01.2003 (Dy. No. LCO-98/02-03 dated 13.01.2003)
CA-4253	Rs. 5,00,000/-	Jehangir H. Patel and Zarin Jehangir Patel	Cumulative	Jehangir H. Patel and Zarin Jehangir Patel	File No. 2545 General Manager's Order dated 13.01.2003 (Dy. No. LCO-99/02-03 dated 13.01.2003)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Kanpur Circle</u> 10% Relief Bonds 1995 (G.P. Noncum.)					
KN-000576	Rs. 47,00,000/-	Akhilesh Kumar Sahu and Meenu Sahu	4.7.1997	Akhilesh Kumar Sahu and Meenu Sahu	IR-903/76 dated 23.1.2003

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Mumbai (Fort) Circle Government of India Gold Bonds 1998					
BY/SJG/000282 to BY/SJG/000289 (eight bonds)	500 gms. of gold each	Radheshyam Mishra Saraf	08.6.1993	Gowind Radheshyam Agarwal	Case No. 20.4.2105 General Manager's Orders dated 17.12.2002 C.O. Diary No. 406 dated 17.12.2002
6.5% Government of India Loan 2005					
BY/0005901	Rs. 6,000/-	Canara Bank	01.04.1979	The Shahabad Investments and Traders Ltd. Provident Fund Trust	Case No. 20.04.2231. General Manager's Orders dated 09.12.2002. C.O. Diary No. 391 dated 09.12.2002

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Byculla (Mumbai Circle)</u> <u>9% R.B. 1987</u>					
GPA-B-10861	Rs. 10,000/-	Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao	8.1.1991	Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao	06.25.62 21/6/2002
<u>Nagpur Circle</u> <u>Gold Bond Scheme 1993</u>					
BY-STL-000189	591 Grams	Rajendra Kumar Oswal	Payable on maturity in 1998	Rajendra Kumar Oswal	In terms of Dy. General Manager's Order dated 23 rd November 2002
<u>Kolkata Circle</u> <u>5 3/4% Loan 2001</u>					
CA-000085	Rs. 5,000/-	Reserve Bank of India	No interest paid since issue	Jayanta Chakraborty and Malay Kumar Chatterjee (Trustees, Containers & Closures Ltd. Workers Provident Fund)	File No. I-2432 General Manager's Order dated 05.11.2002 (DdY.No.LCO-72/02-03 date 05.11.2002)
CA-001094	Rs. 25,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
<u>Kolkata Circle</u> <u>9% Relief Bonds 1999</u>					
CAC-001121	Rs. 8,00,000/-	Samar Gupta (Expired on 29.05.2001) and Jolly Gupta (E or S)	Cumulative	Jolly Gupta	File No. I-2546 General Manager's Order dated 25.11.2002 (DY.No.LCO-78/02-03 dated 25.11.2002)


(A.S. Mohinani)
p. Chief General Manager

The 8th April 2003

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended February 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Kolkata Circle</u>					
<u>10% Relief Bonds, 1995</u>					
CA-000718	Rs.50,000/-	Chameli Guha and Surojit Samanta	Cumulative	Chameli Guha and Surojit Samanta	File No. I-2549 General Manager's Order dated 07.02.2003 (Dy. No. LCO-108/02-03 dated 07.02.2003)
CA-000736	Rs.50,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order
1	2	3	4	5	6
<p style="text-align: center;"><u>Mumbai (Fort) Circle</u> <u>Government of India Gold Bonds 1998</u></p>					
BY/SJG/000282 to BY/SJG/ 000289 (eight bonds)	500 gms. of gold each	Radheshyam Mishrilal Saraf	08.6.1993	Govind Radheshyam Agrawal	Case No. 20.4.2105 General Manager's Orders dated 17.12.2002 C.O. Diary No. 406 dated 17.12.2002
<p style="text-align: center;"><u>6.5% Government of India Loan 2005</u></p>					
BY/006901	Rs. 6,000/-	Canara Bank	01.04.1979	The Shahabad Investments and Traders Ltd. Provident Fund Trust	Case No. 20.04.2231 General Manager's Orders dated 09.12.2002 C.O. Diary No. 391 dated 09.12.2002

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Byculla (Mumbai Circle)</u> <u>9% R.B. 1987</u>					
GPA-BC-10861	Rs. 10,000/-	Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao	8.1.1991	Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao	06.25.62 21/6/2002
<u>Nagpur Circle</u> <u>Gold Bond Scheme 1993</u>					
BY-STL.000189	591 Grams	Rajendra Kumar Oswal	Payable on maturity in 1998	Rajendra Kumar Oswal	In terms of Dy. General Manager's Orders dated 23 rd November 2002
<u>Kanpur Circle</u> <u>10% Relief Bonds 1995</u> (G.P. Noncum.)					
KN-000576	Rs. 47,00,000/-	Akhilesh Kumar Sahu and Meenu Sahu	4.7.1997	Akhilesh Kumar Sahu and Meenu Sahu	IR-903/76 dated 23.1.2003
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Kolkata Circle</u> <u>10% Relief Bonds 1995</u>					
CA-000839	Rs. 3,00,000/-	Jayita Deb and Manashi Bose	Cumulative	Jayita Deb and Manashi Bose	File No. I-2545 General Manager's Order dated 13.01.2003 (Dy. No. LCO-98/02-03 dated 13.01.2003)
CA-4253	Rs. 5,00,000/-	Jehangir H. Patel and Zarin Jehangir Patel	Cumulative	Jehangir H. Patel and Zarin Jehangir Patel	File No. I-2548 General Manager's Order dated 13.01.2003 (Dy. No. LCO-99/02-03 dated 13.01.2003)

A.S. Mohinani
(A.S. Mohinani)

p. Chief General Manager

STATE BANK OF INDORE


HEAD OFFICE,

Indore, the 1st May 2003

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore on Thursday the 26th June 03 at 11.30 am. (Indian Standard Time) to transact the following business :-

"To receive the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2003 (1.4.2002 to 31.3.2003), the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the period and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS,


(S. Prasada Rao)

MANAGING DIRECTOR

INDIAN BANK

Head Office

Chennai-600 001, the 12th April 2003

No. 223, In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called Indian Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979 for regulation 38 after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that where an officer leaves or discontinues his services by resignation on or after 1st April, 2001 after giving due notice under sub-regulation (2) of Regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of the privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to maximum of 120 days."

R SATYANARAYANA MURTHY
Asst. General Manager (IR & HRD)


Foot Note :—Earlier amendments to the above Regulation to Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979 were published in the Gazette as per details given below.

S. No.	Notification No.	Dated
(1)	22	31.05.1997
(2)	25	16.03.2000
(3)	34	25.08.2001

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd April 2003


No.U-16/53/2000/Med.II/Orissa:- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. S.P. Das to function as Medical Authority for western Orissa Centre for the period of one year from at a monthly remuneration in accordance with the norms till a full time Medical Referee join, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SEZ) Bhubaneshwar for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.


(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER


New Delhi The 7th April 2003

No.U-16/53/PTMR/Mumbai-Med.II:- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (WZ), Mumbai for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. G.V. Deshmane	1.1.2003 to 31.12.2003	Amalner



(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER

No.U-16/53/94/Med.II/Assam:- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby give ex-post-facto approval to Dr. A.K. Barua, Ex AMO, Assam to function as Medical Authority for Tinsukia Centre from 18.8.2002 to 30.9.2002 and also one year appointment to Dr.(Mrs.) L. Hazarika, AMO, Assam from 1.10.2002 to 17.8.2003 at a monthly remuneration in accordance with the norms till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (EZ) Kolkata for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.


(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER

New Delhi : 11th April 2003

No. U-16/53/2000/Med.II(M.P.):— In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr.(Col.)A.K.S. Bais, PMR to function as Medical Authority for Gwalior Centre Madhya Pradesh for the period of one year from 20.3.2003 to 19.3.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.


(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

New Delhi, the 24th April 2003

No. N-15/13/14/6/2000-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely

"Areas comprising the Revenue Village of Thirumudivakkam of Sriperumpudur Taluk in Kancheepuram District."

R.C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd January 2003

No. S-35017/3/02-SS-II—WHEREAS M/S College '74-Chennai, (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide Notification No. S-35015/16/93-SS. II dated 8.7.1994.

AND WHEREAS

- (i) The establishment has allowed the contribution of the other companies to be remitted to the trust without prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner.
- (ii) The establishment has failed to submit monthly returns in time.
- (iii) The establishment has failed to submit forms and balance sheets in time.
- (iv) The establishment has failed to maintain prescribed pattern of investment.
- (v) The establishment has failed to maintain the nominations, properly.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.03.2002.

SANJUKTA RAY
Under Secy.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 4th April 2003

No. C.P.F.C. 1(4) MH/2063/2003/40—Whereas it appears to the Central Provident fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name of the Estt.	Date of Coverage
1.	MH/46033	M/s AIRPAC INDIA	6.5.2002
2.	MH/46062	M/s. Melfrank Engineers	9.5.2002
3.	MH/46082	M/s. Priata Intercontinental.	6.5.2002
4.	MH/46091	M/s Standard Technology & Convertors Pvt. Ltd.	1.4.2002
5.	MH/46201	M/s Viking Marine Service.	16.8.2002
6.	MH/NSK/51938	M/s Rajhans Nagari Sahakari Patsanstha Maryadit.	1.10.2002
7.	MH/AB/81153	M/s Parali Vajjnath Tluka Kharadi Vikri Sangh Ltd.	22.5.02

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S.R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) MH(2036)/02/41—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>
1.	MH/NSK/51821	M/s.Kai Rajaram Nehe Patil Sahakari Duddh Vyavasaik Sanstha.	01.12.01
2.	MH/51823	M/s.Contak Marketing	01.6.01
3.	MH/45436	M/s.IHP Finvest Ltd.	01.5.01
4.	MH/97690	M/s.A.S.D.Vision	01.3.01
5.	MH/45354	M/s.Akin Chemical Pvt. Ltd.	01.4.99.
6.	MH/105143	M/s.D.M.Group Communication	01.2.02
7.	MH/105144	M/s.Pratibha Devi Nagari Sahakari Pat Sanstha Ltd.	01.1.02
8.	MH/97793	M/s.Nova Com Technologies (I) Pvt. Ltd.	01.6.01
9.	MH/97679	M/s.Sidhivinayak Construction	01.3.01
10.	MH/45900	M/s.Resources Research International	01.12.01
11.	MH/45901	M/s.Agarwal Chemical Agencies	01.12.01
12.	MH/97594	M/s.Shreerang Classes	01.4.2000
13.	MH/45790	M/s.Triton Logistics and Maritime Pvt. Ltd.	01.8.01
14.	MH/97826	M/s.Bhargava Sales and Service	01.8.01
15.	MH/39152	M/s.Kalpa-Taru(Real estate Bombay Pvt. Ltd.).	01.1.93
16.	MH/39151	M/s.Kalpa-Taru(Indo-Sevigon)	01.1.93
17.	MH/51822	M/s.Anand Nagari Sahakari Pat Sanstha.	01.11.01
18.	MH/39154	M/s.Kalpa-Taru Habitat Pvt. Ltd.	01.1.93

19.	MH/45826	M/s.P.C.Pipeline	01.11.01
20.	MH/45081	M/s.Digital Zone	01.11.01
21.	MH/63287	M/s.Siddhi Vinayak Security Services	01.01.02
22.	MH/45984	M/s.Ahuraz Shipping and Clearing Pvt. Ltd.	01.01.02
23.	MH/45271	M/s.Kotak Forex Brokerage Ltd.	01.3.01
24.	MH/45899	M/s.George Fisher Piping System Ltd.	01.01.02
25.	MH/45958	M/s.Prabhu Envirotec Pvt. Ltd.	01.3.02
26.	MH/28115	M/s.Ananthacharya Indological Research	01.01.2000
27.	MH/51835	M/s.Satana Uttar Bhagvivid Karyakari Sahakari(Vikas) Seva S.Maryadit	01.02.02.
28.	MH/45923	M/s.Kalpataru Shhan Properly Developers	01.9.93
29.	MH/45981	M/s.Moneyman Software	01.3.02
30.	MH/NSK/51824	M/s.Kashinath D.S.N.S.Path Sanstha	01.01.02
31.	MH/45780	M/s.Vikas Hiring Service	01.3.01
32.	MH/45419	M/s.Hi-Flyers Travels Services Pvt. Ltd.	01.4.01

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.


 (S.R.JOSHI)
 REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4) MH(2039)/2002/42—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name of the establishments</u>	<u>Date of Coverage</u>
1.	MH/96626	M/s Shivam Industries	01-09-1997
2.	MH/45353	M/s Everest Marble Agencies	01-07-1999
3.	MH/63085	M/s Adarsh Security Service Dalit Society	01-03-2001
4.	MH/105127	M/s Suri Vitthal Sahakari Sakhar Karkhana Sevakanchi	01-11-2001
5.	MH/62092	M/s Maharashtra Rajya Vidyut Mandal Karamchari Grahak Sahakari Sanstha Ltd.	01-06-1997
6.	MH/39155	M/s Kalpa-Taru Builders	01-02-1993
7.	MH/46074	M/s Dalvi Book Binders	01-04-2002
8.	MH/45402	M/s Finorga India Pvt. Ltd.	01-04-2002
9.	MH/44057	M/s Entermonde Exim Pvt. Ltd.	01-06-1998
10.	MH/45876	M/s G-4, Software Technologies India Ltd.	01-12-2001
11.	MH/51818	M/s Satana Sahakari Grahak Sanstha Ltd.	01-11-2001
12.	MH/45734	M/s Alpha Consultants	01-09-2001
13.	MH/45849	M/s Attributes International	01-11-2001
14.	MH/45483	M/s Deepak Engineering	01-06-2001
15.	MH/105139	M/s Yeshwant Urban Co-operative Bank	01-11-2001
16.	MH/63016	M/s Umiya Urban Co-operative bank	01-01-2001
17.	MH/63283	M/s Ex-Service Men Security Service	01-12-2001
18.	MH/45932	M/s Naved Telecom	01-02-2002

19.	MH/46057	M/s Grace Consolidations	01-04-2002
20.	MH/45912	M/s Freight Express Clearing Forwarding (I) Pvt. Ltd.	01-01-2002


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.


(S.R.JOSHI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/KR/2053/2003/43—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name & address of the estt.</u>	<u>Date of Coverage</u>
1.	KR/16673	M/s Freemanwhite Cad India Private Limited	12.6.2002
2.	KR/17634	M/s P.G.P & Sons	30.4.2001
3.	KR/KK/17712	M/s Chemmanur Fashion Jewellers	1.8.2002
4.	KR/KK/17719	M/s K.V.K & Sons	1.8.2002
5.	KR/17725	M/s Sacred Heart Convent	8.10.2002
6.	KR/KNR/18158	M/s Plant Wood Interiors	23.9.2002
7.	KR/KNR/18163	M/s Souparnika Travels	1.11.2002
8.	KR/KNR/18146	M/s Sree Thiruvappan Travels	18.4.2002
9.	KR/KNR/18149	M/s Janaki Deluxe Ekkal	4.5.2002
10.	KR/KC/19489	M/s Green House Nursery	20.11.2001

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments


(S.R.JOSHI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. C.P.F.C. 1(4)/TN(2034)/2002/44—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S. No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>
1.	TN/TR/43585	M/s. Dhanalakshmi Nursing Home.	1-4-2000
2.	TN/TR/43694	M/s. P.R.M.K. Viveka- nanda Vidyalaya Mat. School.	1-10-2000
3.	TN/43469	M/s. Marudham Mat. School.	1-1-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned estts. from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.


(S.R. JOSHI)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/ TN(2048)/2002/45—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name & address of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>
1.	TN/MD/42666	M/s Umaa Snacks.	7.3.2002
2.	TN/CB/56127	M/s Sri Sastha Construction.	7.5.2002
3.	TN/CB/56097	M/s Sham Associates.	18.3.2002
4.	TN/CB/56098	M/s Ganesh Construction Work.	18.3.2002
5.	TN/50015	M/s Senthil Technocrafts.	19.7.2002
6.	TN/50014	M/s Dass Caterers	31.5.2002
7.	TN/CB/56163	M/s Contemporary Tea Auction- eers Private Ltd.	10.7.2002
8.	TN/50028	M/s Microtek Power Controls Pvt. Ltd.	24.7.2002
9.	PC/1206	M/s Seaside Guest House.	26.12.2001
10.	TN/65223	M/s Rohini Holistic Health Centre Pvt. Ltd.	31.7.2002
12.	TN/65225	M/s Excel Construction	9.7.2002
12.	TN/49831	M/s Balaaji Engineers.	15.2.2002
13.	PC/1213	M/s Devi Tapes.	2.4.2002
14.	PC/1212	M/s Safety First Technology Pvt. Ltd.	28.3.2002
15	TN/MD/42423	M/s The Chinnamanur Co-op House Building Society Ltd.	28.10.2000
16.	TN/II/41405	M/s Vinston Agencies.	24.4.2002
17.	TN/II/46921	M/s M.G.R.K. Constructions	2.4.2002
18.	PC/1219	M/s I.T. Power India Ltd.	23.4.2002
19.	TN/II/46883	M/s Thommaiyyar and Sons.	15.12.2001
20.	TN/65077	M/s GEO Surveys.	16.5.2001
21.	TN/MD/42654	M/s Sree Baalaaji Bhavan.	22.2.2002

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act. Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act. to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.



(S.R. JOSHI)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/ TN(2045)/2003/46—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

<u>S.No.</u>	<u>Code No.</u>	<u>Name & address of the estt.</u>	<u>Date of Coverage.</u>
1.	TN/MD/42720	M/s K.Keeranur Primary Agrt Co-op Bank.	31.5.2002
2.	TN/60106	M/s Florentia Fashions Ltd	13.8.2001
3.	TN/65197	M/s V.I.P.Enterprises	17.6.2002
4.	TN/49318	M/s Mccoy Engineering Pvt Ltd	4.1.2001
5.	TN/MD/42718	M/s D.D.445 Veda sandur Panchayat Union Employees Co-op Thrift & Credit Society.	19.6.2002
6.	PC/1193	M/s Sundari Agencies	31.10.2001
7.	TN/MD/42688	M/s GRJ Marketing Private Ltd	8.5.2002
8.	TN/65184	M/s Press Form Industries	17.5.2002
9.	TN/50001	M/s Sabarimala Net Solutions Private Limited	7.6.2002
10.	TN/49777	M/s Integrated Logistige India Service Pvt. Ltd.	15.1.2002
11.	TN/TI/46919	M/s A.N.S. Sundaram & Co.	13.3.2002
12.	TN/49839	M/s Metroof India Pvt. Ltd.	1.3.2002
13.	TN/49552	M/s Pride Remedies Pvt. Ltd.	30.5.2001
14.	TN/49860	M/s Samtech Systems	4.3.2002
15.	TN/TI/46980	M/s Indu Builders	6.12.2001
16.	TN/65117	M/s J.H.Fire Sæcurity Service	1.11.2001
17.	TN/49861	M/s Skywest Exports P. Ltd.	7.3.2002
18.	TN/65122	M/s Associated Nippon Techni-cal Services Pvt. Ltd.	27.9.2001
19.	TN/49540	M/s Harita General Finance Pvt. Ltd.	18.6.2001
20.	TN/65161	M/s Venture Infosys	11.2.2002
21.	TN/TI/46845	M/s St. Antony's Agencies	6.7.2001

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of section 1 of the said Act. Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provision of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


(S.R. JOSHI)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER,


No. C.P.F.C. I(4)/ AP/2065/2002/47—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S.No	Code No	Name of the Establishment	Date of Coverage
1.	Ap/29680	M/s. The Bheemavaram Large Sized Co-op. Credit Society Ltd	1.1.1999
2.	Ap/40834	M/s. Green Visakha Consultancy	1.10.2001
3.	Ap/29615	M/s. The Jallakallu Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.2001
4.	AP/39679	M/s. Pillute Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.2001
5.	Ap/28380	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.12.1998
6.	Ap/37179	M/s. Vedamatha Cold Storage Pvt. Ltd	1.2.2001
7.	Ap/40790	M/s. Shri Sai Pradeep Engineering Works	1.9.2001
8.	AP/28247	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.1997
9.	Ap/28362	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.10.1998
10.	Ap/33955	M/s. The Gangavaram Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.2.2001
11.	Ap/33954	M/s. The Chandalur Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.3.2001
12.	Ap/33960	M/s. The Inkollu Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2001
13.	Ap/39677	M/s. Uma Maheswara Puram Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.8.2001
14.	Ap/37051	M/s. Ravivalasa Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.7.2000
15.	Ap/33957	M/s. N. 775 Daggu Badu Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.2.2001
16.	Ap/33971	M/s. The Appikatta Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.1.2001
17.	Ap/38810	M/s. Yemmiganur Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.12.2001
18.	Ap/38822	M/s. The Anantapur District Sericulture employees Co-op. Credit Society Ltd.	1.2.2002
19.	Ap/26029	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.10.1993
20.	Ap/27378	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.12.1993
21.	Ap/33862	M/s. Veligandla Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.1.2000
22.	Ap/39708	M/s. Bharathi Nagar Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.2001
23.	Ap/27377	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.12.1993
24.	Ap/36367	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.2001
25.	Ap/26375	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.10.1993
26.	Ap/34703	M/s. The Somaghatta Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.7.1996
27.	Ap/30669	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.11.1996
28.	Ap/30863	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.11.1996
29.	Ap/31884	M/s. Venkata Bhyripuram Primary Agricultural Co-op. society Ltd	1.6.1998
30.	Ap/26326	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.8.1994
31.	Ap/36908	M/s. seagull Power Industries	1.10.2000
32.	Ap/26324	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.8.1994
33.	Ap/35478	M/s. Madikapuram Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd	1.9.1999

34.	Ap/30180	M/s. Sri Lakshmi Oil Traders	1.9.1997
35.	Ap/34794	M/s. The Komidedu Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2000
36.	Ap/30931	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.11.1996
37.	Ap/29682	M/s. Deepthi Security Training & Services	1.11.1998
38.	Ap/34772	M/s. Kothapalli Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.2000
39.	Ap/36442	M/s. Sri Balaji Enterprises	1.9.1999
40.	Ap/34782	M/s. Kavala Keentla Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.2001
41.	Ap/34785	M/s. The Pragathi Co-op. Building Society Ltd.	1.1.2001
42.	Ap/33968	M/s. The Udurgi Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.2001
43.	Ap/33913	M/s. The Bodhanam Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.2001
44.	Ap/29406	M/s. Chittanur Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd. td.	1.7.1997
45.	Ap/25846	M/s. Ayyavaripalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.1995
46.	Ap/29899	M/s. Mega City Security Service	1.4.1996
47.	Ap/35991	M/s. Nagarjuna /farmers Service Co-op. Society Ltd.	1.1.1995
48.	Ap/29057	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.1994
49.	Ap/32714	M/s. S.R. Enterprises	1.6.1998
50.	Ap/28978	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.10.1995
51.	Ap/37884	M/s. The Citizen Co-operative Society Ltd.	1.9.2000
52.	Ap/26342	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.1993
53.	Ap/30980	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1995
54.	Ap/30952	M/s. See Yes Network Technologies Pvt. Ltd.	1.5.1997
55.	Ap/32274	M/s. Kwaliti Sales & Services Pvt. Ltd.	1.9.1995
56.	Ap/37213	M/s. Sangeeth Sagar	1.1.2000
57.	Ap/25420	M/s. Pradeep Kumar Public School	1.2.1994
58.	Ap/35992	M/s. Farmers Service Co-op. Society Ltd.	1.4.1999
59.	Ap/28975	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.2.1995
60.	Ap/37692	M/s. The Yadgiri Lakshmi Narsimha Swamy Co-op Bank Ltd.	1.4.2000
61.	Ap/34984	M/s. Madhava Soft Pvt.Ltd.	1.1.1999
62.	Ap/37612	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.1999
63.	Ap/30650	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1995
64.	Ap/36428	M/s. Srinivasa Fabrics	1.9.1999
65.	Ap/32120	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1995
66.	Ap/32347	M/s. Sarada Cyberware (p) Ltd.	1.1.1998
67.	Ap/30902	M/s. Vimal Sales & Services (P) Ltd.	1.1.1997
68.	Ap/42016	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2001
69.	Ap/42015	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2001
70.	Ap/30701	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1995
71.	Ap/34874	M/s. Deepti Antacide Pvt. Ltd.	1.2.1999
72.	Ap/31066	M/s. Vijaya Durga Beverages Limited	1.4.1996
73.	Ap/34944	M/s. S.R. Powermek	1.12.1996
74.	Ap/38715	M/s. Allagoda Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.8.2001
75.	Ap/29026	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1996
76.	Ap/29618	M/s. the Bodammanur Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.7.1998
77.	Ap/30701	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.10.1993
78.	Ap/37700	M/s. Bison Canteen	1.7.2000
79.	Ap/34224	M/s. Paras Electronics	1.1.1999
80.	Ap/35825	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.1999
81.	Ap/37712	M/s. Vamsi Industries	1.5.2000
82.	Ap/30652	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.1995
83.	Ap/37416	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.11.1999
84.	Ap/36279	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.1999
85.	Ap/38695	M/s. Thinnampalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.6.2001
86.	Ap/36291	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.2.2001
87.	Ap/36602	M/s. Rapaka Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.2.2000
88.	Ap/29599	M/s. Diguvapalli Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.8.1998
89.	Ap/34800	M/s. Mudigutti Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.1.2001

90.	Ap/38601	M/s. Ammaladimme Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.1.2001
91.	Ap/38605	M/s. SBI Staff Co-operative Credit Society Ltd.	1.1.2001
92.	Ap/34768	M/s. Movatur Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.2000
93.	Ap/38618	M/s. Thondapadu Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2001
94.	Ap/34769	M/s. Kristipadu Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.1.2001
95.	Ap/35016	M/s. Sri Kalyani Co-op. Urban Bank Ltd.	1.3.1999
96.	Ap/31898	M/s. Soperu Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.1999
97.	Ap/34729	M/s. Kuchivaripally Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.10.2000
98.	Ap/36933	M/s. Siva Sai Enterprises	1.11.2000
99.	Ap/34749	M/s. Nalluru Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.11.2000
100.	Ap/36935	M/s. Janamitra Mutually Aided Co-op. Thrift Society Ltd.	1.8.2000
101.	Ap/34767	M/s. Mamadur Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.2000
102.	Ap/34766	M/s. Roddam Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.2000
103.	Ap/38608	M/s. siddavaram Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.12.2000
104.	Ap/36846	M/s. The Hindustan Shipyard Worker's Co-op. Thrift & Credit Society Ltd.	1.5.2000
105.	Ap/36982	M/s. Gayatri Engineering Constructions	1.12.2000
106.	Ap/36937	M/s. Gupta Engineering Works	7.10.2000
107.	Ap/31733	M/s. Saiuru Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.1998
108.	Ap/37041	M/s. The ECA & IS Ltd. Workmen's Consumers Co-op Stores Ltd.	1.1.2001
109.	Ap/31612	M/s. Someswara Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.6.1996
110.	Ap/28562	M/s. Jarjangi Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.4.1993
111.	Ap/36986	M/s. Vidyut Employees Co-operative Society Ltd.	1.12.2000
112.	Ap/29262	M/s. Gunipalli Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.10.1996
113.	Ap/37058	M/s. Kamla Nursing Home	1.1.2001
114.	Ap/36981	M/s. Ajay Associates	1.11.2000
115.	Ap/36969	M/s. Anatest & Maritime Consultants	1.12.2000
116.	Ap/26855	M/s. Brahmanatarala Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.9.1994
117.	Ap/26842	M/s. Rentikota Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.9.1994
118.	Ap/38619	M/s. Tada Co-op. House Building Society Ltd.	1.1.2001
119.	Ap/34425	M/s. Yellasiri Primary Agricultural Co-op. Society Ltd.	1.8.1993
120.	Ap/38683	M/s. Nandimaudalam Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd.	1.3.2001
121.	Ap/37029	M/s. Syntetic	1.1.2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.


(S.R. JOSHI)


REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

CORRIGUNDOM

No. 2/1959/EDLI/Exem./89/Pt-1

8.0..... Whereas M/s. Bala Graphics, Chennai, Code No. TN/39234 has been granted Exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

The above said estt. was granted exemption w.e.f. 1.3.02 to 31.7.05 vide H.O.'s Notification. The date exemption may be read as 1.3.02 to 28.2.05 instead of 1.3.05 to 31.7.05.


(S.R. JOSHI)


Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/EDLI/Exem./89/Pt-1

5.0.....Whereas (1) M/s. DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LTD., POLUR, (2) M/s. SAKS ANCILLERIES LTD. CHENNAI and (3) M/s. RSL INDUSTRIES LTD., CHENNAI, Code No. (1) TN/24810-E, (2) TN/23519 and (3) TN/23533 has been granted Extension of Exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said estts.

AND WHEREAS the Employers renewed the master policy upto 30.11.00, 31.10.00 and 30.11.2000 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F.C. hereby restrict the Exemption under Section 17(2A) upto 31.10.2000 30.11.2000 and 30.11.2000.


(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund commissioner

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O.....Whereas M/s. ELFOTECH ELECTRO CHEMICALS LTD.,
PONDICHERRY

Code No. TN/PC/483 has been granted extension/exemption under
Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter
referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the mater policy upto 31.12.97
and reverted back to implementing statutory
E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F.C. hereby restrict the Exemption
under Sec.17(2A) upto 31.12.97.



(B.R. JOSHI)
Regional Provident Fund Commissioner.


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O.....whereas M/s. Nelloore Milk Producers Co.op. Society
Nelloore, P.O. (Via) Sechindrum Dist., Kenya Kumari

Code No. TN/20590 has been granted exemption /exemption under section
17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto 1.2.96
and reverted back to implementing statutory L.I.
Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section
17(2A) of the Act. Upto 1.2.96.



(S.R. JOSHI)
Regional Provident Fund Commissioner


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt-i

S.O.....Whereas M/s. THE STANDARD MACHNIC TOOLS, CHENNAI

Code No. TN/3520 has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the mater policy upto 30.11.95 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F.C. hereby restricted the Exemption under Section 17(2A) upto 30.11.95.



(S.R. JOSHI)
Regional Provident Fund Commissioner.


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O.....whereas M/s. Cavinkare Pvt. Ltd., 130, Peters Road, Chennai.

Code No. TN/FV/397 has been granted exemption /exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto 1.7.01 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section 17(2A) of the Act. Upto 1.7.01



(S. R. JOSHI)
Regional Provident Fund Commissioner


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O. whereas M/s. Modi & Modi Co., Mode House, 60, Kasthuri Rangan Road, Alwarpet, Chennai

Code No. TN/10330 has been granted exemption /exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto 1.3.02 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section 17(2A) of the Act. Upto 1.3.02.



(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt-1


S.O.Whereas M/s. Bonke All India Press Compound

Pondicherry

Code No. PG/606 has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the mater policy upto 31.3.99 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F.C. cancelled the above said exemption 1.4.99.



(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund Commissioner.


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1 |

S.O.whereas M/s. Sivananda Steels Ltd., Plot No. 18, 19 & 20, Indl. Estate, Ambattur, Chennai-58.

Code No. TN/6361 has been granted exemption /exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto 7.10.98 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section 17(2A) of the Act. Upto 7.10.98.



(S.R. Joshi)

Regional Provident Fund Commissioner


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O.whereas M/s. **The Washermenpet Co.op. Stores Ltd., Rajarethinam Road, Chennai.**

Code No. **TN/22028** has been granted exemption /exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto **28.2.02** and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section 17(2A) of the Act. Upto **28.2.02**



(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund Commissioner


No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt.1

S.O.whereas M/s. **The Blackstone Group of India, D-109, I.B. R. Complex, 1st Floor, 1st Main Road, Annanagar, Chennai**

Code No. **TN/39455** has been granted exemption /exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the matter policy upto **1.1.01** and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above C.P.F. C. hereby restrict the exemption under section 17(2A) of the Act. Upto **1.1.01**



(S.R. JOSHI)

Regional Provident Fund Commissioner